

बालभवन बालिका विद्यापीठ लखीसराय

कक्षा – पंचम्

दिनांक -05 - 11- 2020

विषय -हिन्दी

विषय शिक्षक -पंकज कुमार

एन, सी, ई, आरटी, पर आधारित

सुप्रभात बच्चों आज विस्मयादिबोधक शब्द के बारे में अध्ययन करेंगे ।

विस्मयादिबोधक – जो शब्द विस्मय, हर्ष, शोक, प्रशंसा, भय, क्रोध, दुख आदि मन के भावों को प्रकट करते हैं, वे विस्मयादिबोधक कहलाते हैं; जैसे

- छिह कितनी गंदगी है।
- अरे! तुम भी आ गए।
- वाह! क्या छक्का मारा है।

कुछ अन्य विस्मयादिबोधक शब्द – बाप रे, हाय, अजी, उफ, हे राम, आह, शाबाश, काश, हे भगवान, सावधान, खबरदार आदि।

बहुविकल्पी प्रश्न

1. जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं, उन्हें कहते हैं

- (i) विशेषण
- (ii) क्रियाविशेषण
- (iii) संबंधबोधक
- (iv) विस्मयादिबोधक

2. क्रिया के होने का समय प्रकट करते हैं

- (i) कालवाचक क्रियाविशेषण
- (ii) रीतिवाचक क्रियाविशेषण
- (iii) परिमाणवाचक क्रियाविशेषण
- (iv) इनमें कोई नहीं

3. संबंधबोधक शब्द किसके बाद जुड़ते हैं?

- (i) संज्ञा या सर्वनाम के बाद
- (ii) केवल सर्वनाम के बाद
- (iii) संज्ञा या सर्वनाम के बाद भी और पहले भी
- (iv) केवल संज्ञा के बाद

4. दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को मिलाने वाले शब्दों को कहते हैं

- (i) संबंधबोधक
- (ii) समुच्चयबोधक
- (iii) विस्मयादिबोधक
- (iv) ये सभी

5. अव्यय शब्द के मुख्यतया कितने भेद माने जाते हैं?

- (i) तीन
- (ii) चार
- (iii) पाँच
- (iv) छह

6. अव्यये शब्दों का दूसरा नाम है?

- (i) तत्सम
- (ii) अविकारी
- (iii) उपकारी
- (iv) तद्भव

7. इनमें विस्मयादिबोधक शब्दों में कौन-सी भाव प्रकट होता है?

- (i) आश्चर्य
- (ii) घृणा
- (iii) शोक
- (iv) उपर्युक्त सभी

8. हिंदी में समुच्चयबोधक के कितने भेद हैं ?

- (i) दो

- (ii) तीन
- (iii) चार
- (iv) पाँच

उत्तर-

1. (ii)
2. (i)
3. (i)
4. (ii)
5. (ii)
6. (ii)
7. (iv)
8. (i)